



सुरक्षा के लिए की गई कटौती की स्थिति में सुरक्षित और तैयार रहने में आपकी मदद करना



Pacific Gas and Electric Company (PG&E) से आगंतुक की सूचना और संसाधन

हमारे समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए, PG&E उन्नत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करता है जो जंगल की आग को रोकने में मदद करते हैं। इन उपकरणों के नतीजन अस्थायी तौर पर बिजली जा सकती है, जिसकी जून से नवंबर तक होने की संभावना सबसे अधिक होती है।

PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS (PSPS)

अंतिम उपाय के तौर पर, जब जोखिम सबसे ज़्यादा हो तो जंगल की आग को रोकने में मदद के लिए बिजली को सक्रिय तौर पर बंद किया जा सकता है। यह जोरदार हवाओं, कम आर्द्रता और शुष्क वनस्पति के तालमेल की वजह से होता है।

आपके मेजबान को पहले से ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी और हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर नवीनतम जानकारी ली जा सकती है। pge.com/psps पर और जानें।

आपको तैयारी करने में मदद करना

➤ कटौती से पहले

- अपने मेजबान से संपर्क करके उनके आपातकालीन योजना और आगंतुकों हेतु साइट पर उनके पास मौजूद संसाधनों, जैसे फ्लैशलाइट और पोर्टेबल चार्जर के बारे में जानें।
- उपकरणों को चार्ज रखें और आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले ज़रूरी फ़ोन नंबर लिख लें।
- आपके दौरे के दौरान pge.com/addressalerts पर अपने आवास के लिए PSPS की सूचनाएं पाने के लिए साइन अप करें।

➤ किसी कटौती के दौरान

- 211 पर कॉल करें, "PSPS" लिखकर 211-211 पर भेजें या स्थानीय संसाधनों जैसे भोजन, आवास और परिवहन के साथ 24/7 जुड़े रहने के लिए 211.org पर जाएं।
- मूल आपूर्ति, Wi-Fi, चार्जिंग स्टेशन और ADA-पहुँच योग्य रेस्टरूम के लिए pge.com/crc पर तलाशें।
- pge.com/pspsresources पर भोजन के विकल्प खोजें।

उन्नत पावरलाइन सुरक्षा सेटिंग्स (EPSS)

जब जंगल में आग लगने का खतरा अधिक होता है, तो PG&E EPSS तकनीक को सक्षम कर सकता है, जिससे बिजली लाइनों से एक सेकंड के दसवें हिस्से के अन्दर ऑटोमैटिक तौर पर बिजली बंद करने की अनुमति देता है अगर कोई समस्या आती है जो कि आग लगने की वजह बन सकती है।

प्लान ना की गई सुरक्षा कटौती के दौरान हम अपनी वेबसाइट पर और आपके मेजबान से अपडेट शेयर करेंगे। pge.com/epss पर और जानें।

आगंतुकों के लिए अधिक संसाधन और सहायता पाने के लिए pge.com/wildfiresafety पर जाएँ।



240+ भाषाओं में अनुवाद सहायता के लिए, PG&E को 1-866-743-6589 पर कॉल करें।